



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 41

जनवरी 23, 2026

संख्या 4

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2025	2026		घट - बढ़	
	जनवरी 17	जनवरी 09	जनवरी 16	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3558952	3928255	3942212	13956	383260
1.1 संचलन में नोट	3558938	3928244	3942195	13951	383257
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	11	16	5	2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	43	43	0	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	897242	734446	770438	35993	-126804
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7798	6357	7818	1461	20
2.6 अन्य बैंक	49947	42012	41971	-41	-7976
2.7 अन्य	444574	709160	688303	-20856	243729
3 अन्य देयताएं	1989935	2810382	2898169	87787	908234
कुल देयताएं / आस्तियां	6948591	8230755	8349055	118300	1400464
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4653195	4995140	5122121	126981	468926
2 सोना	597172	1017307	1067327	50020	470155
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1265672	1897291	1943590	46299	677919
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	23623	13012	20162	7150	-3461
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	262197	121580	885	-120695	-261312
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	123845	154646	163118	8472	39273
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	20824	29715	29789	74	8965

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जनवरी 16, 2026 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6373302	701360	177406	14167	661161	33034	968770	77377
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5093544	560518	126797	9652	242710	-7040	475886	27385
1.2 स्वर्ण	1067327	117454	50020	4623	399164	39277	470155	48507
1.3 विशेष आहरण अधिकार	169967	18704	1010	-35	14677	535	15951	922
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42465	4684	-421	-73	4609	261	6778	563

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जनवरी 31, 2026 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 764046 करोड़	2026															
	जनवरी 16	जनवरी 17	जनवरी 18	जनवरी 19	जनवरी 20	जनवरी 21	जनवरी 22	जनवरी 23	जनवरी 24	जनवरी 25	जनवरी 26	जनवरी 27	जनवरी 28	जनवरी 29	जनवरी 30	जनवरी 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	776185	767220	769613	777700	765390	765267	750725									
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.6	100.4	100.7	101.8	100.2	100.2	98.3									

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	दिसंबर 31, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	337365	28816	-2896	27951	25532	45790
1.2 बैंकों से उधार	84013	192	-44095	-27962	-50744	-54321
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	32844	-1402	-45846	2929	-43020	6238
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24859857	727987	1587365	2279256	1974550	2797266
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		3.0	7.8	10.1	9.8	12.7
2.1.1 मांग	3275198	355245	125719	577149	132068	705625
2.1.2 मीयादी	21584659	372742	1461645	1702107	1842481	2091641
2.2 उधारियां	825578	-16714	177158	-89670	196036	-129522
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1060702	-223230	59198	-930	59496	64076
3 रिज़र्व बैंक से उधार	168974	142406	21981	-142492	-26655	-75723
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	796081	-32736	7779	-168208	-6235	-232614
4.1 उपलब्ध नकदी	83464	2128	-167	1589	-5816	-5803
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	712617	-34864	7945	-169798	-419	-226811
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	271662	6806	18411	55861	14675	54924
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	36097	1820	5987	10259	1141	17755
5.3 बैंकों को अग्रिम	35293	2087	-7686	-4211	-3423	-5389
5.4 अन्य आस्तियां	69208	7792	-51577	1855	-36936	5361
6 निवेश	6884983	3626	489189	187055	605244	289236
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	8.0	2.8	10.1	4.4
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6884483	3580	489639	187185	605484	289234
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	500	46	-451	-130	-239	2
7 बैंक ऋण	20322515	627951	1310874	2078543	1781094	2579478
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		3.2	8.0	11.4	11.2	14.5
7 क.1 खाद्य ऋण	87972	4023	33058	51441	13000	31834
7 क.2 खाद्येतर ऋण	20234543	623929	1277816	2027102	1768093	2547644
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	19916855	598847	1287745	2007004	1749406	2494807
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	96940	7008	11596	21977	19794	24877
7 ख.3 भुनाए गए	271619	20127	14461	50560	15283	59800
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13617	756	-861	-1505	-1854	-1934
7 ख.5 भुनाए गए	23485	1214	-2068	508	-1536	1928

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त पखवाड़ा #	2024			2025		
	दिसंबर 27			दिसंबर 15		
	1			2		3
अनुपात						
नकदी-जमाराशि अनुपात		4.66		3.43		3.20
ऋण-जमाराशि अनुपात		80.42		81.61		81.75
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात		82.58		93.51		91.19
निवेश-जमाराशि अनुपात		29.90		28.52		27.70
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात		30.82		11.82		8.21
यद/समाप्त सप्ताह	2025			2026		
	जनवरी 17	दिसंबर 19	दिसंबर 26	जनवरी 02	जनवरी 09	जनवरी 16
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
नियत रिर्वेस रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
बैंक दर	6.75	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/7.95	7.80/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	6.00/6.50	6.00/6.50	6.00/6.50
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत)	6.59	5.37	5.43	5.43	5.37	5.36
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.60	5.28	5.26	..	5.31	5.34
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.72	5.50	5.48	..	5.54	5.60
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.70	5.50	5.54	..	5.58	5.63
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.78	6.67	6.65	6.69	6.71	6.75
एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	86.58	90.20	89.83	90.12	90.14	90.65
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.08	105.68	105.85	105.84	105.01	105.22
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	3.12	5.05	5.24	2.57	3.09	3.10
3-माह	3.16	3.63	3.52	2.90	3.38	3.51
6-माह	2.65	3.21	3.08	2.55	2.95	3.06

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।
@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाफिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	दिसंबर 31*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	29800906	742566	2.6	1639604	6.6	2514317	9.2	2202187	9.0	3221442	12.1
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3828359	7883	0.2	49701	1.5	197607	5.4	203862	6.3	368382	10.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3423133	357593	11.7	123825	4.8	583111	20.5	130223	5.0	712421	26.3
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	22434416	376674	1.7	1458985	7.7	1731907	8.4	1847523	10.0	2127270	10.5
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114999	416	0.4	7093	7.5	1692	1.5	20578	25.4	13370	13.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8750686	-63710	-0.7	297548	3.9	239860	2.8	628501	8.6	849567	10.8
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1545561	-67342		-192322		37455		21232		544670	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7205125	3633	0.1	489870	7.6	202405	2.9	607269	9.6	304897	4.4
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	21146517	639884	3.1	1326524	7.7	2078389	10.9	1819668	10.9	2617161	14.1
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	20322	8882		-3887		-17924		5439		9803	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	21126196	631002	3.1	1330411	7.7	2096313	11.0	1814229	10.9	2607359	14.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6585472	-103279	-1.5	233736	4.2	436945	7.1	463311	8.7	784233	13.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	39895	175	0.4	2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6721664	-269496	-3.9	220455	4.0	244140	3.8	712380	14.3	1033731	18.2
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2769495	-41287	-1.5	101043	5.6	622068	29.0	97967	5.5	878318	46.4

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

^: 15 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन के साथ, मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े माह की 15वीं और अंतिम तारीख के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025	2026	पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	मार्च 31	जनवरी 15*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4862647	63512	1.3	50891	1.1	33405	0.7	214088	4.8	180311	3.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3979951	56428	1.4	78506	2.2	255503	6.9	179468	5.3	389984	10.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	766118	5503	0.7	-36704	-3.6	-225371	-22.7	9460	1.0	-222627	-22.5
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	116579	1580	1.4	9089	9.6	3272	2.9	25160	32.1	12953	12.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1707315	161754		-88503		199210		88673		602605	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1687836	158526		-96523		212376		90140		597704	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-107228	-91978		273227		11787		50483		-334309	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-124182	-88610		277121		33079		45198		-340750	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6062086	63662	1.1	-15471	-0.3	511139	9.2	242368	4.9	836475	16.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	39895			2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2839420	69926	2.5	120614	6.7	691994	32.2	170522	9.8	928673	48.6

^: 31 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के अंतर्गत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण आरक्षित मुद्रा के संबंध में ये आंकड़े महीने के 15वें एवम अंतिम दिन के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुद्रत)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		क्रिय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
जनवरी 12, 2026	-	-	-	-	291	157091	-380	-	-	-157180
जनवरी 13, 2026	-	-	-	-	925	114646	-	-	50000	-63721
जनवरी 14, 2026	-	-	29114	-	788	119519	-	-	-	-89617
जनवरी 15, 2026	-	-	-	-	4437	154487	-	-	-	-150050
जनवरी 16, 2026	-	-	-	-	885	135566	-	-	-	-134681
जनवरी 17, 2026	-	-	-	-	177	135579	-	-	-	-135402
जनवरी 18, 2026	-	-	-	-	399	121330	-	-	-	-120931

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024	2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	195.4	197.9	198.0	0.1	3.1	1.3
1.1 ग्रामीण	198.4	199.6	199.9	0.2	3.1	0.8
1.2 शहरी	192.0	195.9	195.9	0.0	3.2	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.7	148.2	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.7	155.9	157.0	0.7	1.4	0.8
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	193.8	192.1	194.2	1.1	4.7	0.2
3.2 ईंधन और बिजली	151.8	146.5	148.3	1.2	-2.5	-2.3
3.3 विनिर्मित उत्पाद	143.0	145.0	145.6	0.4	0.7	1.8

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा*	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 31, 2025	568136	88512	5.25 - 6.87
जनवरी 15, 2026	574586	40189	5.25 - 6.70

*बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, जमा प्रमाणपत्रों के लिए डेटा 16 से 31 दिसंबर 2025 और 1 से 15 जनवरी 2026 के लिए प्रकाशित किया गया है।

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 31, 2025	451053	59006	5.99 - 13.53
जनवरी 15, 2026	453839	26659	5.92 - 13.42

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जनवरी 17, 2025	जनवरी 09, 2026	जनवरी 16, 2026
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	16683	31815	25176
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	6324	1854	10963
3 त्रिपक्षीय रेपो	779174	771014	958361
4 बाजार रेपो	661241	654925	796414
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	7717	12461	17235

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जनवरी 16, 2026 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	8940	13036	102535	203435
182-दिवसीय	40727	54800	7464	188764
364-दिवसीय	63830	92895	42282	352582
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (जनवरी 16, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 17, 2025 तक)	2024-25	2025-26 (जनवरी 16, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 17, 2025 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1211000	1175697	1400697	815334	814275	1039275
2. राज्य सरकारें	810268	676320	1073310	543956	455115	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।